



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 20 अक्टूबर, 2021  
आश्विन 28, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 514/तीन-2021-39(2)-2016

लखनऊ, 20 अक्टूबर, 2021

विज्ञप्ति

प०आ०-336

निम्नलिखित सूची में निर्दिष्ट पर्व/त्योहार, राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुषों की जन्म तिथियों को समस्त उत्तर प्रदेश में राज्यपाल सार्वजनिक अवकाश घोषित करती हैं। भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 20/25-56-Pub-1, दिनांक 8 जून, 1957 के द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह सार्वजनिक अवकाश यथा निर्दिष्ट लोक अवकाश माने जायेंगे।

2-यदि कोई पर्व/त्योहार, राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुषों की जन्म तिथि एक साथ एक तिथि/दिवस को घटित होते हैं, तो ऐसी दशा में पृथक दिवस में सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जायगा। वर्ष 2022 अर्थात् शक संवत् 1943-1944 एवं विक्रम संवत् 2078-2079 की समस्त सार्वजनिक अवकाशों की तिथियाँ (निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन हैं) निम्नवत् होंगी।

## वर्ष 2022 के सार्वजनिक अवकाश

क्र०	त्योहारों का नाम	अवकाश की संख्या	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	विक्रम सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	गणतन्त्र दिवस	1	26 जनवरी, 2022	माघ 06, 1943	माघ कृष्ण 09, 2078	बुधवार
2	*मो० हजरत अली का जन्म दिवस	1	15 फरवरी, 2022	माघ 26, 1943	माघ शुक्ल 14, 2078	मंगलवार
3	महाशिवरात्रि	1	01 मार्च, 2022	फाल्गुन 10, 1943	फाल्गुन कृष्ण 14, 2078	मंगलवार
4	होलिका दहन	1	17 मार्च, 2022	फाल्गुन 26, 1943	फाल्गुन शुक्ल 14, 2078	गुरुवार
5	होली	1	18 मार्च, 2022	फाल्गुन 27, 1943	फाल्गुन शुक्ल 15, 2078	शुक्रवार
6	राम नवमी	1	10 अप्रैल, 2022	चैत्र 20, 1944	चैत्र शुक्ल 09, 2079	रविवार
7	डा० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस/ महावीर जयन्ती	1	14 अप्रैल, 2022	चैत्र 24, 1944	चैत्र शुक्ल 13, 2079	गुरुवार
8	गुड फ्राइडे	1	15 अप्रैल, 2022	चैत्र 25, 1944	चैत्र शुक्ल 14, 2079	शुक्रवार
9	* ईद-उल-फितर	1	03 मई, 2022	वैशाख 13, 1944	वैशाख शुक्ल 03, 2079	मंगलवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	1	16 मई, 2022	वैशाख 26, 1944	वैशाख शुक्ल 15, 2079	सोमवार
11	*ईदुज्जुहा (बकरीद)	1	10 जुलाई, 2022	आश्विन 19, 1944	आश्विन शुक्ल, 11, 2079	रविवार
12	*मोहर्रम	1	09 अगस्त, 2022	श्रावण 18, 1944	श्रावण शुक्ल 12, 2079	मंगलवार
13	रक्षा बन्धन	1	12 अगस्त, 2022	श्रावण 21, 1944	श्रावण शुक्ल 15, 2079	शुक्रवार
14	स्वतंत्रता दिवस	1	15 अगस्त, 2022	श्रावण 24, 1944	भाद्रपद कृष्ण 04, 2079	सोमवार
15	जन्माष्टमी	1	18 अगस्त, 2022	श्रावण 27, 1944	भाद्रपद कृष्ण 07, 2079	गुरुवार
16	महात्मा गांधी जयन्ती	1	02 अक्टूबर, 2022	आश्विन 10, 1944	आश्विन शुक्ल 07, 2079	रविवार
17	दशहरा (महानवमी)	1	04 अक्टूबर, 2022	आश्विन 12, 1944	आश्विन शुक्ल, 09, 2079	मंगलवार
18	दशहरा (विजयदशमी)	1	05 अक्टूबर, 2022	आश्विन 13, 1944	आश्विन शुक्ल, 10, 2079	बुधवार
19	* ईद-ए-मिलाद/ बारावफात	1	09 अक्टूबर, 2022	आश्विन 17, 1944	आश्विन शुक्ल, 15, 2079	रविवार
20	दीपावली	1	24 अक्टूबर, 2022	कार्तिक 02, 1944	कार्तिक कृष्ण 14, 2079	सोमवार
21	गोवर्धन पूजा	1	26 अक्टूबर, 2022	कार्तिक 04, 1944	कार्तिक शुक्ल 01, 2079	बुधवार
22	भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती	1	27 अक्टूबर, 2022	कार्तिक 05, 1944	कार्तिक शुक्ल 02, 2079	गुरुवार
23	गुरु नानक जयन्ती/ कार्तिक पूर्णिमा	1	08 नवम्बर, 2022	कार्तिक 17, 1944	कार्तिक शुक्ल 15, 2079	मंगलवार
24	क्रिसमस-डे	1	25 दिसम्बर, 2022	पौष 04, 1944	पौष शुक्ल 02, 2079	रविवार

\* यह त्योहार/पर्व स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे।

जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

**3-वर्ष 2022 के निर्बन्धित अवकाश :-**

क्र०	त्योहारों के नाम	अवकाश की संख्या	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	विक्रम सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	नव वर्ष दिवस	1	01 जनवरी, 2022	पौष 11, 1943	पौष कृष्ण 13, 2078	शनिवार
2	मकर संक्रान्ति	1	14 जनवरी, 2022	पौष 24, 1943	पौष शुक्ल 12, 2078	शुक्रवार
3	जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस	1	24 जनवरी, 2022	माघ 04, 1943	माघ कृष्ण 06, 2078	सोमवार
4	* हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स	1	27 जनवरी, 2022	माघ 07, 1943	माघ कृष्ण 10, 2078	गुरुवार
5	बसंत पंचमी	1	05 फरवरी, 2022	माघ 16, 1943	माघ शुक्ल, 05, 2078	शनिवार
6	संत रविदास जयंती	1	16 फरवरी, 2022	माघ 27, 1943	माघ शुक्ल 15, 2078	बुधवार
7	होली / * शबे बरात	1	19 मार्च, 2022	फाल्गुन 28, 1943	चैत्र कृष्ण 01, 2078	शनिवार
8	चेटी चन्द	1	02 अप्रैल, 2022	चैत्र 12, 1944	चैत्र शुक्ल 01, 2079	शनिवार
9	महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयन्ती	1	05 अप्रैल, 2022	चैत्र 15, 1944	चैत्र शुक्ल 04, 2079	मंगलवार
10	ईस्टर सैटरडे	1	16 अप्रैल, 2022	चैत्र 26, 1944	चैत्र शुक्ल 15, 2079	शनिवार
11	चन्द्रशेखर जयंती	1	17 अप्रैल, 2022	चैत्र 27, 1944	वैशाख कृष्ण 01, 2079	रविवार
12	ईस्टर मन्डे	1	18 अप्रैल, 2022	चैत्र 28, 1944	वैशाख कृष्ण 02, 2079	सोमवार
13	*जमात-उल-विदा (अलविदा) / रमजान का अंतिम शुक्रवार	1	29 अप्रैल, 2022	वैशाख 09, 1944	वैशाख कृष्ण 14, 2079	शुक्रवार
14	परशुराम जयन्ती	1	03 मई, 2022	वैशाख 13, 1944	वैशाख शुक्ल 03, 2079	मंगलवार
15	*ईद-उल-फितर	1	04 मई, 2022	वैशाख 14, 1944	वैशाख शुक्ल 03, 2079	बुधवार
16	लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती	1	09 मई, 2022	वैशाख 19, 1944	वैशाख शुक्ल 08, 2079	सोमवार
17	*ईदुज्जुहा (बकरीद)	1	11 जुलाई, 2022	आषाढ 20, 1944	आषाढ शुक्ल 12, 2079	सोमवार
18	*मोहर्रम	1	10 अगस्त, 2022	श्रावण 19, 1944	श्रावण शुक्ल 13, 2079	बुधवार
19	अनन्त चतुर्दशी	1	09 सितम्बर, 2022	भाद्रपद 18, 1944	भाद्रपद शुक्ल 14, 2079	शुक्रवार
20	विश्वकर्मा पूजा / *चेहल्लुम	1	17 सितम्बर, 2022	भाद्रपद 26, 1944	आश्विन कृष्ण 07, 2079	शनिवार
21	महाराजा अग्रसेन जयन्ती	1	26 सितम्बर, 2022	आश्विन 04, 1944	आश्विन शुक्ल 01, 2079	सोमवार

1	2	3	4	5	6	7
22	दशहरा (महाष्टमी)	1	03 अक्टूबर, 2022	आश्विन 11, 1944	आश्विन शुक्ल 08, 2079	सोमवार
23	महर्षि बाल्मीकि जयंती	1	09 अक्टूबर, 2022	आश्विन 17, 1944	आश्विन शुक्ल 15, 2079	रविवार
24	नरक चतुर्दशी	1	23 अक्टूबर, 2022	कार्तिक 01, 1944	कार्तिक कृष्ण 13, 2079	रविवार
25	छठ पूजा पर्व	1	30 अक्टूबर, 2022	कार्तिक 08, 1944	कार्तिक शुक्ल 06, 2079	रविवार
26	सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती	1	31 अक्टूबर, 2022	कार्तिक 09, 1944	कार्तिक शुक्ल 07, 2079	सोमवार
27	वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस	1	16 नवम्बर, 2022	कार्तिक 25, 1944	मार्गशीर्ष कृष्ण 08, 2079	बुधवार
28	चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस	1	23 दिसम्बर, 2022	पौष 02, 1944	पौष कृष्ण 30, 2079	शुक्रवार
29	क्रिसमस ईव	1	24 दिसम्बर, 2022	पौष 03, 1944	पौष शुक्ल 01, 2079	शनिवार

\* यह त्योहार/पर्व स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार होंगे।

#### 4-उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी की तिथि निम्नवत् होगी :-

क्र0	बैंकों की लेखाबन्दी	अवकाश की संख्या	ग्रेगोरियन कलैण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	विक्रम सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	**वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी	1	01 अप्रैल, 2022	चैत्र 11, 1943	चैत्र कृष्ण 30, 2078	शुक्रवार

\*\* केवल बैंकों/कोषागार/उपकोषागारों हेतु।

#### 5-कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत अवकाशों की सूची :-

क्र0	त्योहारों के नाम	अवकाश की संख्या	ग्रेगोरियन कलैण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	विक्रम सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	गुरु गोविन्द सिंह जयंती	1	09 जनवरी, 2022	पौष 19, 1943	पौष शुक्ल 07, 2078	रविवार
2	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	1	24 नवम्बर, 2022	मार्गशीर्ष 03, 1944	मार्गशीर्ष शुक्ल 01, 2079	गुरुवार
3	गुरु गोविन्द सिंह जयंती	1	29 दिसम्बर, 2022	पौष 08, 1944	पौष शुक्ल 07, 2079	गुरुवार

6-मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स (संशोधित), 1981 संस्करण पैरा-247(सी) की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से अधिकतम 03 स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं जिसके संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में संबंधित आयुक्त को अवगत करायेंगे। यदि तीन स्थानीय अवकाशों से अधिक स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने की आवश्यकता हो तो इस हेतु शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

7-विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं अन्य विभागों में जहाँ पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है वहाँ कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत घोषित अवकाश तथा प्रस्तर-6 में उल्लिखित जिलाधिकारियों द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 354 राजपत्र-2021-(799)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० प्रशासन-2021-(800)-400 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।